

of his functions as Port Officer, Nancowrie; and

(b) if so, the steps taken to check the unauthorised movements of private vessels from Nancowrie Port and to ensure that such vessels do not carry general cargo to and from the surrounding islands without possessing valid Load-Line Certificates?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi):

(a) Under sections 7 and 36 of the Indian Ports Act, 1908, Tehsildar, Nancowrie has been declared as Conservator of Port of Camorta (Nancowrie). He has not been divested of these functions. Port of Camorta (Nancowrie) has not been declared as a customs-port under section 7 of the Customs Act, 1962 and hence Tehsildar, Nancowrie cannot exercise powers under the latter Act. The position has been explained to Tehsildar, Nancowrie.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भारतीय भाषाओं के समानार्थक शब्दों का संकलन

१७५३. श्री प्रकाशबीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देश की सब मुख्य भाषाओं के समानार्थक शब्दों का कोई संग्रह तैयार करने का कोई मुझाव मिला है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार क्या इस सन्ध में कुछ सोच रही है : और

(ग) कब तक इस पर अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त वरान) : (क) से (ग) तक. विवरण सभा पत्र पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया, डेखिये संख्या एल०टी०-२६१६-६४]

शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालयों के नाम

१७५४. { श्री कछुवाय :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) पिछले एक वर्ष में उनके मंत्रालय के अधीन कितने नये कार्यालयों, संगठनों और संस्थाओं की स्थापना हुई ; और

(ख) इनमें से कितनों के नाम अंग्रेजी में तथा कितनों के भारतीय भाषाओं में रखे गये ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :
(क) तीन ।

(ख) दो का नाम अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों में रखा गया है तथा एक का नाम केवल अंग्रेजी में ।

नये कार्यालयों तथा संगठनों के नाम

१७५५. { श्री कछुवाय :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में उनके मंत्रालय के अधीन कितने नये कार्यालयों, संगठनों और संस्थाओं की स्थापना हुई ; और

(ख) इनमें से कितनों के नाम अंग्रेजी में रखे गये तथा कितनों के भारतीय भाषाओं में ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) दो ।

(ख) दोनों दफ्तरों के नाम अभी अंग्रेजी में ही हैं ।